



सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट
भाग-4, खण्ड (ख)
(परिनियत आदेश)

लखनऊ, सोमवार, 5 अक्टूबर, 2020
आश्विन 13, 1942 शक सम्बत्

उत्तर प्रदेश सरकार
सहकारिता अनुभाग-1

संख्या 1585/49-1-20-7(9)-19
लखनऊ, 5 अक्टूबर, 2020

अधिसूचना
आदेश

प0आ0-375

चूँकि राज्य सरकार का यह समाधान हो गया है कि लोक हित में ऐसा करना आवश्यक और समीचीन है ;

अतएव, अब, उत्तर प्रदेश अत्यावश्यक सेवाओं का अनुरक्षण अधिनियम, 1966 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 30 सन् 1966) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके, राज्यपाल इस अधिसूचना के गजट में प्रकाशित किये जाने के दिनांक से छः माह की अवधि के लिये उत्तर प्रदेश राज्य भण्डारण निगम के अधीन समस्त सेवाओं में हड़ताल निषिद्ध करती हैं।

2-उक्त धारा की उपधारा (2) के अधीन राज्यपाल अग्रतर निदेश देती हैं कि यह आदेश गजट में प्रकाशित किया जायेगा।

आज्ञा से,
एम0वी0एस0 रामी रेड्डी,
अपर मुख्य सचिव।

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 1585/XLIX-1-20-7(9)-19, dated October 5, 2020:

No. 1585/XLIX-1-20-7(9)-19
Dated Lucknow, October 5, 2020

WHEREAS the State Government is satisfied that in the public interest it is necessary and expedient so to do;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers under sub-section (1) of section 3 of the Uttar Pradesh Essential Services Maintenance Act, 1966 (U.P. Act no. 30 of 1966), the Governor is pleased to prohibit with effect from the date of publication of this notification in the *Gazette*, strikes for a period of six months in all services under the Uttar Pradesh State Warehousing Corporation.

2. Under sub-section (2) of the said section, the Governor is further pleased to direct that this order shall be published in the *Gazette*.

By order,
M.V.S. RAMI REDDY,
Apar Mukhya Sachiv.